



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/ पौष 5, 1935

No. 621]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSA 5, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

**सा.का.नि. 798(अ).—** केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 और धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों को सूचना के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा :

- कोई आपेक्ष या सुझाव जो किसी व्यक्ति से उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;
- आपेक्ष या सुझाव, यदि कोई है, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 को भेजे जा सकेंगे।

## प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 50 में, उपनियम (3) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि 200 मि मी ग 100 मि मी आकार वाली प्लेट में जिसके पास उक्त रीति में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दर्शित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का अल्फा न्यूमेरिक निम्नलिखित रीति में नियम 51 के अनुसार सभी विमाओं को रखते हुए और प्लेट में सुरक्षा गुणों में व्यवधान के बिना दर्शित किया जाएगा—

कि जहां रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में अल्फा न्यूमेरिक चिन्हों की कुल संख्या सम है तब, प्रत्येक पंक्ति में अल्फा न्यूमेरिक चिन्ह के बराबर संख्या; और कि जहां रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में अल्फा न्यूमेरिक चिन्हों की कुल संख्या विषम हो तब वहां अतिरिक्त अल्फा न्यूमेरिक चिन्हों को दूसरी पंक्ति में दर्शित किया जाएगा

[ फा. सं. आरटी-11028/07/2012-एमवीएल, ]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

**टिप्पण—** मूल नियम सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 664(अ) तारीख 27 सितम्बर, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26<sup>th</sup> December, 2013

**G.S.R. 798(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 41 and 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government;

3. Objection or suggestion, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110 001.

**Draft Rules**

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 50, in sub-rule (3), after the first proviso, following clause shall be inserted, namely:-

“Provided that in 200mm x 100mm size plate not having sufficient space to exhibit the registration mark in the above manner, the alpha numeric of the registration mark shall be displayed in the following manner-

That where the total number of alpha numeric characters in the registration mark is even, then, equal number of alpha numeric characters in each line ; and

Where the total number of alpha numeric characters in the registration mark is odd, then any extra alpha numeric characters shall be exhibited on the second line,

“Keeping all dimensions as per rule 51 and without disturbing security features in the plate:”

[F. No. RT-11028/07/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

**Note:**—The principal rules were published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended vide G.S.R. 664(E), dated 27<sup>th</sup> September, 2013